



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1312]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2006/कार्तिक 10, 1928

No. 1312]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2006/KARTIK 10, 1928

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ.1875(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूर्व में रिलायन्स गैस पाइपलाइन लिमिटेड की संप्रवर्तक कंपनी मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गोवा में उत्तरी/दक्षिणी अपतट में खोज ब्लॉकों और आन्ध्रप्रदेश में संरचनाओं से महाराष्ट्र राज्य में, ठाणे जिले के विभिन्न उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में श्री.एस.डी.भिसे, सक्षम प्राधिकारी, रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हरि नारायण कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, जुना डालडा डिपो, शिवाजी चौक, फर्नीचर मार्केट, उल्हासनगर - 421003, जिला ठाणे महाराष्ट्र राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : अम्बरनाथ			जिला : ठाणे		राज्य : महाराष्ट्र	
गोंद का नाम	सर्वे नं/पट नं	आर ओ यु अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल				
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5		
1. काराव	37	00	41	21		
	36	00	00	55		
	31	00	05	69		
	30	00	19	06		
	55	00	45	41		
	56/2	00	10	18		
	64	00	15	07		
	95/3	00	01	93		
	95/2	00	54	57		
	96/1	00	00	48		
	113	00	04	96		
	115/1	00	00	23		
	115/2	00	06	61		
	115/3	00	17	84		
116	00	56	23			
84	00	40	15			
2. इंदगोंव	38/3	00	25	96		
	38/4	00	20	86		
	38/5	00	14	70		

[फा. सं. एल-14014/43/2004-जी.पी.]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1875(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the natural gas from exploration blocks in the Northern/ Southern Offshore of Goa and structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited, the Promoter company of M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, formerly known as M/s Reliance Gas Pipeline Limited to the various consumers of District Thane in the State of Maharashtra, a pipeline should be laid by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the notification as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of right of the user therein for laying the pipeline under the land to **Shri. S. D. Bhise**, Competent Authority, Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, Hari Narayan Complex, 2nd Floor, Old Dalda Depot, Shivaji Chowk, Furniture Market, Ulhasnagar-421003, Dist Thane, Maharashtra State.

SCHEDULE

Mandal Tehsil Taluka: Ambernath		District: Thane		State : Maharashtra	
Village	Survey Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU			
		Hectare	Acre	Sq-mt	
1	2	3	4	5	
1) Karav	37	00	41	21	
	36	00	00	55	
	31	00	05	69	
	30	00	19	06	
	55	00	45	41	
	56/2	00	10	18	
	64	00	15	07	
	95/3	00	01	93	
	95/2	00	54	57	
	96/1	00	00	48	
	113	00	04	96	
	115/1	00	00	23	
	115/2	00	08	61	
	115/3	00	17	84	
	116	00	56	23	
	84	00	40	15	
2) Indgaon	38/3	00	25	96	
	38/4	00	20	86	
	38/5	00	14	70	

[F.No.L-14014/43/2004-GP]

S. B. MANDAL, Under Secy.